



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44 ]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 2001/माघ 28, 1922

No. 44]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2001

फा. सं. 16/38/2000-एन आई-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा 44, 45 और 46 में निहित उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिवहन सेक्टर के स्थापन, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, रेल के डिब्बों, बसों, जलयानों और वायुयानों को इस प्रकार अनुकूल बनाने के लिए विशेष उपाय करेंगे जिससे कि ऐसे व्यक्ति उनमें सहज रूप से पहुंच सकें, रेल के डिब्बों, जलयानों और वायुयानों और प्रतीक्षा गृहों में शौचालयों को इस प्रकार अनुकूल बनाएं जिससे कि व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति उनका प्रयोग सुगमता से कर सकें। यह भी अधिसूचित किया जाता है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर दृष्टिक असुविधाग्रस्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सार्वजनिक सड़कों पर लाल बत्तियों पर श्रवण संकेतों का प्रतिष्ठापन करेंगे, व्हील चेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सहज पहुंच के लिए किनारे काटने और पटरियों में हलान बनाने का प्रावधान करेंगे, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जैबरा क्रॉसिंग की सतह को उत्कीर्ण कराएं, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए रेलवे प्लेटफार्म के किनारों को उत्कीर्ण कराएं, निःशक्तता के समुचित प्रतीकों को विकसित करेंगे, समुचित स्थानों पर स्रोतावनी संकेतों को लगाएं, स्कूलों सहित सार्वजनिक भवनों में ढलवां रास्तों का उपबंध करेंगे, व्हील चेयर का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालयों को अनुकूल बनाएं, उत्पादकों और लिफ्टों में ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों का उपबंध करेंगे, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास संस्थाओं में ढलवां रास्तों का उपबंध करेंगे।

गौरी चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2001

F. No. 16-38/2000-NI.-1.—In pursuance of the provision contain in Sections 44, 45 and 46 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, it is hereby notified that all establishments in the transport sector shall, within the limits of their economic capacity and development, take special measures to adapt rail compartments, buses, vessels and aircrafts in such a way as to permit easy access to such

persons; adapt toilets in rail compartments, vessels and aircrafts and waiting rooms in such a way as to permit the wheel chair users to use them conveniently. It is further notified that the appropriate Governments and the local authorities shall, within the limits of their economic capacity and development, provide for installation of auditory signals at red lights in the public roads for the benefit of persons with visual handicap; causing curb cuts and slopes to be made in pavements for the easy access of wheel chair users; engraving on the surface of the zebra crossing for the blind or for persons with low vision; engraving on the edges of railway platforms for the blind or for persons with low vision; devising appropriate symbols of disability; warning signals at appropriate places; ramps in public buildings, including schools, adaption of toilets for wheel chair users; Braille symbols and auditory signals in elevators or lifts; ramps in hospitals, primary health centres and other medical care and rehabilitation institutions.

GAURI CHATTERJI, Jt. Secy.